



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2016/फाल्गुन 21, 1937

No. 609]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2016/ PHALGUNA 21, 1937

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2016

का.आ. 1049(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त दूसरी अनुसूची में, "मध्य प्रदेश" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 10च के सामने, स्तम्भ 4 के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
			<p>"सितम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2016 तक,</p> <p>यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है और जो इस अवधि के दौरान निम्नलिखित से उत्तीर्ण हुए हैं और अपनी प्रशिक्षुता पूरी की है, अर्थात्:-</p> <p>(i) स्वामी प्रणवानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, छतरपुर;</p> <p>(ii) सागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सागर।</p>

[फा. सं. आर-13040/17/2006-एचडी (तक.) (खंड)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक 343(अ) तारीख 2 फरवरी, 2016 के अंतर्गत किया गया था।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2016

S.O. 1049(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely : -

In the said Second Schedule, under the heading “MADHYA PRADESH”, against serial number 10F, in column 4, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
			<p>“From September, 2004 to December, 2016,</p> <p>if granted to the students who have passed out and completed their internship during this period from the following, namely:-</p> <p>(i) Swami Pranavanand Homoeopathic Medical College, Chhatarpur;</p> <p>(ii) Sagar Homoeopathic Medical College, Sagar”.</p>

[F.No. R/13040/17/2006-HD (Tech)(Pt.)]

ANURAG SHRIVASTAV, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 3496, dated the 11th October, 1977 and last amended *vide* notification number S.O. 343(E) dated the 2nd February, 2016.